



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 194] नई दिल्ली, शनिवार, मई 21, 1983/वैशाख 31, 1905
No. 194] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 21, 1983/VAISAKHA 31, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 21 मई, 1983

सं० 155/83—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सां० कां० नि० 439(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
(विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा
3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944
के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग)
की अधिसूचना सं० 109/75 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल
1975 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में मद सं० 4 और उससे संबंधित
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद सं० और प्रविष्टियां रखी
जाएंगी अर्थात्:—

“4. अप्रसंस्कृत कृत्रिम फेब्रिक, जिसमें टायर कार्ड फेब्रिक सम्मिलित नहीं है।”

[फा.सं 332/1/83-टी.आर.य.]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 21st May, 1983

NOTIFICATIONS

NO. 155/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 439(E).—In exercise of the powers conferred by
sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944,
read with sub-section (3) of section 3 of the Additional
Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957
(58 of 1957), the Central Government hereby makes the
following further amendment in the notification of the Gov-
ernment of India in the Ministry of Finance (Department of
Revenue and Insurance) No. 109/75-Central Excises, dated
the 30th April, 1975, namely:—

In the Schedule to the said notification, for item No. 4
and the entries relating thereto, the following item No. and
entry shall be substituted, namely:—

“4. Unprocessed man-made fabrics, excluding tyre cord
fabrics.”

[F. No. 332/1/83-TRU]

सं० 156/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सं० का० नि० 440(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 22 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले अप्रसंस्कृत टायर काई फैब्रिक को अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय होने अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है जितना

- (i) नायलोन टायर काई फैब्रिक की दशा में 4.00 रु० प्रति किलोग्राम, और
- (ii) अन्य टायर काई फैब्रिक की दशा में 2.00 रु० प्रति किलोग्राम की दर से सगणित रकम से अधिक है।

[फा० सं० 332/1/83-टी आर म]

NO. 156/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 440(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts unprocessed tyre cord fabrics, falling under sub-item (1) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the additional duty of excise leviable thereon under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), as is in excess of the amount calculated at the rate of—

- (i) Rs. 4.00 per Kg. in the case of nylon tyre cord fabrics; and
- (ii) Rs. 2.00 per Kg. in the case of other tyre cord fabrics.

[F. No. 332/1/83-TRU]

सं० 157/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सं० का० नि० 441(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 22 के अन्तर्गत आने वाले अप्रसंस्कृत टायर काई फैब्रिक को, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है।

परन्तु यह तब जब कि ऐसे फैब्रिक उन अप्रसंस्कृत टायर काई फैब्रिकों से विनिर्मित किए गए हैं जिन पर उक्त अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क—

- (i) नायलोन टायर काई फैब्रिक की दशा में 4.00 रु० प्रति किलोग्राम, और
- (ii) अन्य टायर काई फैब्रिक की दशा में 2.00 रु० प्रति किलोग्राम की दर से संदत्त किया गया है।

[फा० सं० 332/1/83-टी० आर० म०]

NO. 157/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 441(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944,

read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts processed tyre cord fabrics, falling under Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the additional duty of excise leviable thereon under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) :

Provided that such fabrics have been manufactured from unprocessed tyre cord fabrics on which additional duty of excise leviable under the said Additional Duties of Excise Act has been paid at the rate of—

- (i) Rs. 4.00 per Kg. in the case of nylon tyre cord fabrics; and
- (ii) Rs. 2.00 per Kg. in the case of other tyre cord fabrics.

[F. No. 332/1/83-TRU]

सं० 158/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सं० का० नि० 442(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 15क की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले रेसोर्सिनोल फॉर्मलिनहाइड सोल्यूशन (डिप सोल्यूशन) को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि उक्त रेसोर्सिनोल फॉर्मलिनहाइड सोल्यूशन (डिप सोल्यूशन) का उपयोग उत्पादन के कारखाने में, उक्त अनुसूची की मद सं० 16 के अन्तर्गत आने वाले टायरों के विनिर्माण में किया जाता है।

[फा० सं० 332/1/83-टी आर म]

NO. 158/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 442(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts resorcinol formaldehyde solution (dip solution) falling under sub-item (1) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act :

Provided that the said resorcinol formaldehyde solution (dip solution) is used within the factory of production for the manufacture of tyres, falling under Item No. 16 of the said First Schedule.

[F. No. 332/1/83-TRU]

सं० 159/83-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सं० का० नि० 443(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के विन मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना का उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति में, यथारिथित संशोधन या और संशोधन किया जाएगा।

सारणी

| क्रम संख्या | अधिसूचना सं० और तारीख | संशोधन |
|-------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 229/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 अक्टूबर, 1982 | उक्त अधिसूचना में उपाबद्ध सारणी में क्रम सं० 2, 6 और 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा। |
| 2. | 234/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 नवम्बर, 1982 | उक्त अधिसूचना की अनुसूची में मद सं० 44 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न-लिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् "45 कर्तित टायर और कर्तित ट्यूब।" |

[फा० सं० 332/1/83-टी० आर० यू०]

वी० लक्ष्मी कुमारन, अधीक्षक सचिव

No.159/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 443(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules 1944, the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of

Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

| S.No. | Notification No. and date | Amendment |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 229/82-Central Excises, dated the 15th October, 1982. | In the Table annexed to the said notification, S.Nos. 2, 6 and 7 and the entries relating thereto shall be omitted. |
| 2. | 234/82-Central Excises, dated the 1st November, 1982 | In the Schedule to the said notification, after Item-No. 44 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :— "45. Cut tyres and cut tubes". |

[F. No. 332/1/83-TRU]

V. LAKSHMI KUMARAN, Under Secy.

